

18(बी): भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र को बकाया ऋण

स्रोत	(₹ करोड़)						प्रतिशत संवृद्धि			
	मार्च के अंत तक			30 अप्रैल तक			मार्च के अंत तक		30 अप्रैल तक	
	2024	2025	2026	2024	2025	2026 P	2024 की तुलना में 2025	2025 की तुलना में 2026	2024 की तुलना में 2025	2025 की तुलना में 2026 अ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. गैर-खाद्य बैंक ऋण	1,65,63,961	1,83,71,998	2,12,91,163	1,65,93,941	1,82,22,511	2,11,07,913	10.9	15.9	9.8	15.8
2. गैर-बैंक स्रोत (2.1+2.2)	77,52,310	89,24,664	1,01,09,295	1,30,634	2,22,833	2,10,049	15.1	13.3	70.6	-5.7
2.1 घरेलू स्रोत	56,59,037	66,37,411	75,11,326	1,30,634	2,22,833	2,10,049	17.3	13.2	70.6	-5.7
2.1.1 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा कॉर्पोरेट बॉण्ड जारी करना	18,25,514	20,23,310	23,45,423	-	-	-	10.8	15.9	-	-
2.1.2 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक पत्र जारी करना	1,09,528	1,28,347	1,36,295	1,30,634	2,22,833	2,10,049	17.2	6.2	70.6	-5.7
2.1.3 आवास वित्त कंपनियों द्वारा ऋण (बैंक ऋण निवल)	5,98,965	6,27,125	6,40,214	-	-	-	4.7	2.1	-	-
2.1.4 आरबीआई - विनियमित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण	4,24,610	5,24,111	6,11,783	-	-	-	23.4	16.7	-	-
2.1.5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ऋण (बैंक ऋण निवल)	27,00,421	33,34,518	37,77,610	-	-	-	23.5	13.3	-	-
2.2 विदेशी स्रोत	20,93,273	22,87,254	25,97,969	-	-	-	9.3	13.6	-	-
2.2.1 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा बाह्य वाणिज्यिक ऋण	10,72,181	11,34,552	12,89,307	-	-	-	5.8	13.6	-	-
2.2.2 विदेश से अल्पकालिक ऋण	10,21,091	11,52,702	13,08,662	-	-	-	12.9	13.5	-	-
3. कुल ऋण (1+2)	2,43,16,271	2,72,96,662	3,14,00,458	1,67,24,575	1,84,45,344	2,13,17,962	12.3	15.0	10.3	15.6

अ: अनंतिम। -; उपलब्ध नहीं।

कॉलम 1 और 2 के लिए डेटा का कवरेज निम्नलिखित स्रोत संख्या से लिया गया है:

2.2.2: दिसंबर तक।

- Notes:** i) गैर-खाद्य बैंक क्रेडिट अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) से जुड़ा है और इसमें सहकारी बैंकों का दिया गया क्रेडिट शामिल नहीं है। सहकारी बैंकों (जैसे, शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक) के दिए गए क्रेडिट को मिलाकर, मार्च 2023, 2024 और 2025 के आखिर में गैर-खाद्य क्रेडिट क्रमशः ₹1,46,22,252 करोड़, ₹1,76,18,552 करोड़ और ₹1,95,07,975 करोड़ था। इसके मुताबिक, मार्च 2023, 2024 और 2025 के आखिर में कुल बकाया क्रेडिट क्रमशः ₹2,20,65,343 करोड़, ₹2,53,75,808 करोड़ और ₹2,83,94,369 करोड़ था।
- ii) गैर-बैंक स्रोतों के आंकड़ों में घरेलू स्रोतों के अंतर्गत इक्विटी और हाइब्रिड लिखतों के निर्गम और विदेशी स्रोतों के अंतर्गत इक्विटी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल नहीं हैं।
- iii) कॉर्पोरेट बॉण्ड के मामले में, मार्च 2024 और 2025 के अंत के लिए बकाया आंकड़े वित्तीय और गैर-वित्तीय निगमों द्वारा जारी बॉण्ड पर सेबी के नए आंकड़ों की शृंखला पर आधारित हैं। मार्च 2023 के अंत के बकाया आंकड़े मार्च 2024 के अंत के बकाया आंकड़ों से 2023-24 के प्रवाह को समायोजित करके निकाले गए हैं।
- iv) बकाया आंकड़ों पर आधारित प्रवाह सारणी 18 (ए) में दिए गए प्रवाह से मेल नहीं खा सकते हैं, इसके कारण निम्नलिखित हैं:
- (ए) 1 जुलाई, 2023 को एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में विलय;
- (बी) कुछ आवास वित्त कंपनियों का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में रूपांतरण; और
- (सी) विदेशी स्रोतों के मामले में मूल्यांकन प्रभाव।
- v) गैर-वित्तीय गैर-सरकारी सार्वजनिक और निजी लिमिटेड कंपनियों के मामले में घरेलू देनदारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्तमान और गैर-वर्तमान व्यापार देय को आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत: आरबीआई; सेबी; एआईएफआई; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।